



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-18082023-248173
CG-DL-E-18082023-248173

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3519]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 17, 2023/श्रावण 26, 1945

No. 3519]

NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 17, 2023/SHRAVANA 26, 1945

रेल मंत्रालय

(उत्तर रेलवे)

(निर्माण संगठन)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 अगस्त, 2023

का.आ. 3678(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेलवे अधिनियम, 1989 के (1989 का 24), 2008 के रेल (संशोधित) अधिनियम (जिसे इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात कि हरियाणा राज्य के सोनीपत जिले में कार्य निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, तथा आपरेशन के लिए विशेष रेल परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखौदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि०मी० 99.185 से कि०मी० 124.820 तक लोक परियोजन के लिए यह भूमि आपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है:

कोई व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा (1) के अधीन पूर्वोक्त के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा,

ऐसा प्रत्येक आक्षेप, जिला राजस्व अधिकारी एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अर्जन) सोनीपत को लिखित रूप में किया जाएगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसे सभी आक्षेपों की सुनवाई के पश्चात तथा ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अननुज्ञात कर सकेगा या अनुज्ञात कर सकेगा,

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उपधारा 2 के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा,

और इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध है और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

हरियाणा राज्य के जिला सोनीपत में विशेष परियोजना "हरियाणा आर्बिटल रेल कारिडोर पलवल से सोनीपत वाया सोहना, मानेसर, खरखौदा" नई ब्रांड गेज दोहरी रेल लाइन कि०मी० 99.185 से कि०मी० 124.820 तक के लिए अर्जन की जानी वाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

| जिले का नाम : सोनीपत | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
| ग्राम का नाम : पाई | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 56//16/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 2 | 56//23/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 3 | 58//2/1/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 4 | 58//3 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 5 | 58//8/2 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 6 | 58//9/2 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 7 | 58//20 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 8 | 59//16/1 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 9 | 59//25 min | भूड़ | निजी | 0.0304 |
| 10 | 62//4/2 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 11 | 62//7/2 min | भूड़ | निजी | 0.0051 |
| 12 | 62//13/2 min | भूड़ | निजी | 0.0051 |
| 13 | 62//19 min | भूड़ | निजी | 0.0076 |
| 14 | 80 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0506 |
| जोड़ | | | | 0.2228 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
| ग्राम का नाम : प्रहलादपुर | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2//6/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 2 | 2//15/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 3 | 2//17 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 4 | 2//18/2 min | गै. मु. समाध | निजी | 0.0051 |

| 5 | 2//23/2 min | गै. मु. समाध | निजी | 0.0051 |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 6 | 2//23/3 | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 7 | 3//2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 8 | 3//10 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 9 | 16//10 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 10 | 17//22/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| जोड़ | | | | 0.0760 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
| ग्राम का नाम : बरोना | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 96//13/2 min | चाही | सरकारी | 0.0405 |
| 2 | 96//19/1 min | बारानी | सरकारी | 0.0126 |
| 3 | 96//19/2/1 min | बारानी | सरकारी | 0.0177 |
| 4 | 96//21/2 min | बारानी | सरकारी | 0.0126 |
| 5 | 99//5/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0228 |
| 6 | 99//7/1 min | बारानी | सरकारी | 0.0152 |
| 7 | 99//13/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0278 |
| 8 | 99//18/1/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 9 | 99//18/1/2 min | बारानी | सरकारी | 0.0051 |
| 10 | 99//19/1 min | बारानी | सरकारी | 0.0253 |
| 11 | 99//21/2/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0177 |
| 12 | 99//22/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0076 |
| 13 | 104//6 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 14 | 104//7/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 15 | 104//14 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 16 | 105//1 min | बरानी | सरकारी | 0.0101 |
| जोड़ | | | | 0.2404 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
| ग्राम का नाम : गोपालपुर | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 46//17/1 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 2 | 46//24/1/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0101 |
| 3 | 61//25/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0051 |

| 4 | 62//11/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0025 |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 5 | 62//12/1/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0405 |
| 6 | 62//12/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.1796 |
| 7 | 62//13 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0228 |
| 8 | 62//19 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0329 |
| 9 | 62//20/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.2200 |
| 10 | 79//19 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0379 |
| 11 | 79//20/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0051 |
| 12 | 79//21/1 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0430 |
| 13 | 80//25/1/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0025 |
| 14 | 80//25/2/1 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0025 |
| 15 | 81//5/1/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0278 |
| 16 | 81//5/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0101 |
| 17 | 81//7/1 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0405 |
| 18 | 81//7/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0025 |
| 19 | 131 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0152 |
| 20 | 101 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0357 |
| जोड़ | | | | 0.7388 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
| ग्राम का नाम : पिपली | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 11//25/2 min | चाही | निजी | 0.0607 |
| 2 | 12//20/2 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 3 | 12//21 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 4 | 14//4/2 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 5 | 14//5 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 6 | 14//7/1 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 7 | 14//7/2 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 8 | 14//8/1 min | चाही | निजी | 0.0455 |
| 9 | 14//12/2 min | चाही | निजी | 0.0354 |
| 10 | 14//13 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 11 | 14//19 min | चाही | निजी | 0.0379 |
| 12 | 14//20/1 min | चाही | निजी | 0.3465 |
| 13 | 14//21/1 min | चाही | निजी | 0.0405 |
| 14 | 15//24/2/2 min | चाही | सरकारी | 0.0152 |

| | | | | |
|----|----------------|---------|--------|--------|
| 15 | 15//25/2/1 min | चाही | सरकारी | 0.0025 |
| 16 | 15//25/2/2 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 17 | 36//4/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0101 |
| 18 | 36//5/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0481 |
| 19 | 36//7/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0278 |
| 20 | 36//7/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0379 |
| 21 | 36//8/2/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 22 | 36//13/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0329 |
| 23 | 36//13/2 min | नहरी | निजी | 0.0304 |
| 24 | 36//18/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 25 | 36//19/1 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 26 | 36//19/2/1 min | चाही | निजी | 0.0455 |
| 27 | 36//19/2/2 min | चाही | सरकारी | 0.0101 |
| 28 | 36//21/2 min | नहरी | निजी | 0.0506 |
| 29 | 36//22 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 30 | 40//1 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 31 | 41//5/2 min | नहरी | निजी | 0.0481 |
| 32 | 41//6 min | चाही | निजी | 0.0253 |
| 33 | 41//7/1/1 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 34 | 41//7/2/1 min | ब. कदीम | निजी | 0.0304 |
| 35 | 41//13/2 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 36 | 41//14 min | चाही | निजी | 0.0354 |
| 37 | 41//18 min | नहरी | निजी | 0.0430 |
| 38 | 41//19/1 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 39 | 41//22 min | नहरी | निजी | 0.0354 |
| 40 | 67//6/1 min | नहरी | निजी | 0.0481 |
| 41 | 67//14/1/2 min | चाही | निजी | 0.0025 |
| 42 | 67//14/2 min | नहरी | निजी | 0.0379 |
| 43 | 67//15/1 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 44 | 67//15/2 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 45 | 67//18/2 min | नहरी | सरकारी | 0.1011 |
| 46 | 67//22/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0076 |
| 47 | 67//23 min | नहरी | सरकारी | 0.2503 |
| 48 | 67//24 min | नहरी | सरकारी | 0.0277 |
| 49 | 68//1/2 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 50 | 68//10 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 51 | 72//2/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |

| | | | | |
|----|----------------|------|--------|--------|
| 52 | 72//2/2 min | नहरी | सरकारी | 0.2099 |
| 53 | 72//3/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0151 |
| 54 | 72//3/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0531 |
| 55 | 72//3/3 min | नहरी | सरकारी | 0.0506 |
| 56 | 72//9 min | नहरी | सरकारी | 0.1163 |
| 57 | 72//10 min | नहरी | सरकारी | 0.1644 |
| 58 | 72//11 min | नहरी | सरकारी | 0.1821 |
| 59 | 72//20 min | नहरी | सरकारी | 0.0025 |
| 60 | 73//15/2 min | नहरी | सरकारी | 0.1087 |
| 61 | 73//16 min | नहरी | सरकारी | 0.2150 |
| 62 | 73//17/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0505 |
| 63 | 73//23/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0252 |
| 64 | 73//24/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0101 |
| 65 | 73//24/2 min | नहरी | सरकारी | 0.2276 |
| 66 | 73//25/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 67 | 73//25/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 68 | 80//16/2 min | नहरी | सरकारी | 0.1922 |
| 69 | 80//16/3 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 70 | 80//24/2/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0405 |
| 71 | 80//24/2/2 min | नहरी | सरकारी | 0.1087 |
| 72 | 80//25/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0152 |
| 73 | 80//25/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0607 |
| 74 | 81//2/3/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0101 |
| 75 | 81//3/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0076 |
| 76 | 81//3/2 min | नहरी | सरकारी | 0.2352 |
| 77 | 81//4/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0101 |
| 78 | 81//4/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0252 |
| 79 | 81//8/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0505 |
| 80 | 81//8/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0127 |
| 81 | 81//9/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0682 |
| 82 | 81//9/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0076 |
| 83 | 81//9/3 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 84 | 81//9/4 min | नहरी | सरकारी | 0.1795 |
| 85 | 81//10/1/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0025 |
| 86 | 81//11 min | नहरी | सरकारी | 0.2251 |
| 87 | 81//12/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0076 |
| 88 | 81//12/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0127 |

| 89 | 81//12/3 min | नहरी | सरकारी | 0.0581 |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 90 | 81//20/1 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 91 | 81//20/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0076 |
| 92 | 81//20/3 min | नहरी | सरकारी | 0.0607 |
| 93 | 84//5/2 min | नहरी | सरकारी | 0.0051 |
| 94 | 102 min | गै. मु. सडक | सरकारी | 0.0177 |
| 95 | 150/1 min | गै. मु. दाहाना | निजी | 0.0076 |
| 96 | 151/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 97 | 152/1 min | गै. मु. दाहाना | निजी | 0.0076 |
| 98 | 153/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0177 |
| 99 | 155 min | गै. मु. दाहाना | निजी | 0.0177 |
| 100 | 156/2 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 101 | 157 min | गै. मु. दाहाना | निजी | 0.0076 |
| 102 | 158/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 103 | 168 min | गै. मु. दाहाना | निजी | 0.0177 |
| 104 | 169/2 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0177 |
| जोड़ | | | | 4.8659 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
| ग्राम का नाम : थाना कंला | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 94//23/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 2 | 115//24/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 3 | 116//3/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 4 | 121//3/2 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 5 | 121//4/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 6 | 121//8 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 7 | 128//10/1 min | चाही | निजी | 0.0025 |
| 8 | 128//11/2 min | चाही | निजी | 0.0025 |
| 9 | 128//20 min | चाही | निजी | 0.0379 |
| 10 | 181min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0405 |
| 11 | 170/1min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0202 |
| जोड़ | | | | 0.1417 |

| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|-----------------------------------|
| ग्राम का नाम : तुर्कपुर | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 27//4/2 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 2 | 27//13/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0253 |
| 3 | 29//17 min | नहरी | निजी | 0.0632 |
| 4 | 29//23 min | नहरी | निजी | 0.0733 |
| 5 | 29//24 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 6 | 35//15 min | नहरी | निजी | 0.0506 |
| 7 | 35//16 min | नहरी | निजी | 0.0379 |
| 8 | 35//17 min | नहरी | निजी | 0.0404 |
| 9 | 35//23/2 min | नहरी | निजी | 0.0329 |
| 10 | 35//24/1 min | नहरी | निजी | 0.0303 |
| 11 | 35//24/2 min | नहरी | निजी | 0.0278 |
| 12 | 36//2 min | नहरी | निजी | 0.0632 |
| 13 | 36//3 min | नहरी | निजी | 0.0227 |
| 14 | 36//9 min | नहरी | निजी | 0.0303 |
| 15 | 36//10 min | नहरी | निजी | 0.0556 |
| 16 | 36//11 min | नहरी | निजी | 0.0278 |
| 17 | 38//2/2 min | नहरी | निजी | 0.0252 |
| 18 | 38//3 min | नहरी | निजी | 0.0632 |
| 19 | 38//9 min | नहरी | निजी | 0.0761 |
| 20 | 38//10/1 min | नहरी | निजी | 0.0128 |
| 21 | 38//11 min | नहरी | निजी | 0.0157 |
| 22 | 39//15/2 min | नहरी | निजी | 0.0784 |
| 23 | 39//16/1 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 24 | 39//16/2 min | नहरी | निजी | 0.1290 |
| 25 | 39//17/1 min | नहरी | निजी | 0.0581 |
| 26 | 39//18/2 min | गै. मु. सडक | सरकारी | 0.0228 |
| 27 | 39//24/1 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 28 | 39//24/2 min | नहरी | निजी | 0.0961 |
| 29 | 62/1min | गै. मु. खाल | निजी | 0.0278 |
| 30 | 93/1 min | गै. मु. खाल | निजी | 0.0126 |
| जोड़ | | | | 1.2269 |

| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| ग्राम का नाम : मन्डोरी | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2//18 min | चाही नहरी | निजी | 0.0531 |
| 2 | 2//23 min | चाही नहरी | निजी | 0.0759 |
| 3 | 11//1/2 min | चाही नहरी | निजी | 0.0152 |
| 4 | 11//2 min | चाही नहरी | निजी | 0.0357 |
| 5 | 11//10/1 min | चाही नहरी | निजी | 0.0633 |
| 6 | 11//10/2 min | चाही नहरी | निजी | 0.0076 |
| 7 | 11//10/3 min | चाही नहरी | निजी | 0.0152 |
| 8 | 12//6/1 min | चाही नहरी | निजी | 0.0101 |
| 9 | 12//14 min | चाही नहरी | निजी | 0.0025 |
| 10 | 12//15 min | चाही नहरी | निजी | 0.0683 |
| 11 | 12//16/1 min | चाही नहरी | निजी | 0.0050 |
| 12 | 12//17 min | चाही नहरी | निजी | 0.0151 |
| 13 | 75 min | गै. मु. सडक | निजी | 0.0051 |
| जोड़ | | | | 0.3721 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : खरखौदा | | | | |
| ग्राम का नाम : मन्डोरा | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 25//13/2/2 min | चाही | निजी | 0.0607 |
| 2 | 25//14/1 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 3 | 25//15/1 min | चाही | निजी | 0.0176 |
| 4 | 25//17/2 min | नहरी | निजी | 0.0276 |
| 5 | 25//17/3 min | नहरी | निजी | 0.1037 |
| 6 | 25//18/1/4 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 7 | 25//18/1/5 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 8 | 25//18/2/4 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 9 | 25//18/2/5 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 10 | 25//18/3/1 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 11 | 25//20/2 min | नहरी | निजी | 0.0402 |
| 12 | 26//16/1/1 min | नहरी | निजी | 0.0480 |
| 13 | 26//16/1/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |

| | | | | |
|----|---------------|-----------|------|--------|
| 14 | 26//16/2 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 15 | 26//17/1 min | नहरी | निजी | 0.0657 |
| 16 | 26//17/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 17 | 26//18 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 18 | 26//21/1 min | नहरी | निजी | 0.0758 |
| 19 | 26//21/2 min | नहरी | निजी | 0.0176 |
| 20 | 26//22/1 min | नहरी | निजी | 0.0734 |
| 21 | 26//22/2 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 22 | 26//23 min | नहरी | निजी | 0.0861 |
| 23 | 26//24/1 min | नहरी | निजी | 0.0226 |
| 24 | 26//24/2 min | नहरी | निजी | 0.0505 |
| 25 | 26//25 min | नहरी | निजी | 0.0987 |
| 26 | 27//25/2 min | नहरी | निजी | 0.0708 |
| 27 | 39//16/2 min | नहरी | निजी | 0.0304 |
| 28 | 39//21/2 min | नहरी | निजी | 0.0304 |
| 29 | 39//22 min | नहरी | निजी | 0.0481 |
| 30 | 39//23 min | चाही नहरी | निजी | 0.0481 |
| 31 | 39//24 min | चाही नहरी | निजी | 0.0455 |
| 32 | 39//25/1 min | चाही नहरी | निजी | 0.0051 |
| 33 | 40//13 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 34 | 40//14/1 min | नहरी | निजी | 0.0278 |
| 35 | 40//14/2 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 36 | 40//15 min | नहरी | निजी | 0.0582 |
| 37 | 40//16/1 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 38 | 40//16/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 39 | 40//17 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 40 | 40//18 min | नहरी | निजी | 0.0430 |
| 41 | 40//19/1 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 42 | 40//19/2 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 43 | 40//20 min | नहरी | निजी | 0.0354 |
| 44 | 40//22 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 45 | 41//6/1 min | चाही | निजी | 0.0379 |
| 46 | 41//7/1 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 47 | 41//8/1 min | नहरी | निजी | 0.0253 |
| 48 | 41//8/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 49 | 41//8/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 50 | 41//9 min | नहरी | निजी | 0.0101 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------|------|--------|
| 51 | 41//11/1 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 52 | 41//11/2 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 53 | 41//12 min | नहरी | निजी | 0.0506 |
| 54 | 41//13 min | नहरी | निजी | 0.0354 |
| 55 | 41//14/1 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 56 | 41//14/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 57 | 41//14/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 58 | 41//14/2/3 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 59 | 41//14/2/4 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 60 | 41//14/3 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 61 | 41//15 min | नहरी | निजी | 0.0506 |
| 62 | 41//19 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 63 | 41//20 min | नहरी | निजी | 0.0390 |
| 64 | 42//1/1 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 65 | 42//1/2 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 66 | 42//2/1 min | नहरी | निजी | 0.0632 |
| 67 | 42//2/2 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 68 | 42//3/1 min | नहरी | निजी | 0.0253 |
| 69 | 42//3/2 min | नहरी | निजी | 0.0401 |
| 70 | 42//4/1 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 71 | 42//4/2 min | नहरी | निजी | 0.0708 |
| 72 | 42//5/1 min | नहरी | निजी | 0.0176 |
| 73 | 42//5/2 min | नहरी | निजी | 0.0784 |
| 74 | 42//6 min | नहरी | निजी | 0.0531 |
| 75 | 42//7 min | नहरी | निजी | 0.1037 |
| 76 | 42//8/2 min | नहरी | निजी | 0.0581 |
| 77 | 42//9/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 78 | 42//9/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0556 |
| 79 | 42//10/1 min | नहरी | निजी | 0.0632 |
| 80 | 42//10/2 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 81 | 42//11 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 82 | 43//1/1/2 min | नहरी | निजी | 0.1214 |
| 83 | 43//1/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 84 | 43//2/1 min | नहरी | निजी | 0.1264 |
| 85 | 43//3/1 min | नहरी | निजी | 0.1264 |
| 86 | 43//4 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 87 | 50//1/1 min | नहरी | निजी | 0.0152 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------|------|--------|
| 88 | 50//1/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 89 | 50//2/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 90 | 50//3/1 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 91 | 50//4 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 92 | 51//2 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 93 | 51//3 min | नहरी | निजी | 0.0354 |
| 94 | 51//4 min | नहरी | निजी | 0.0354 |
| 95 | 51//5/1 min | नहरी | निजी | 0.0278 |
| 96 | 51//7/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 97 | 51//8/1 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 98 | 51//8/2 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 99 | 51//9/1 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 100 | 51//9/2 min | चाही | निजी | 0.0228 |
| 101 | 51//10 min | नहरी | निजी | 0.0354 |
| 102 | 52//6 min | नहरी | निजी | 0.0329 |
| 103 | 52//13/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 104 | 52//13/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 105 | 52//14 min | नहरी | निजी | 0.0354 |
| 106 | 52//15/1 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 107 | 52//15/2 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 108 | 52//15/3 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 109 | 52//15/4 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 110 | 52//17/1 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 111 | 52//17/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 112 | 52//18 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 113 | 52//19/1 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 114 | 52//19/2 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 115 | 52//20/2 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 116 | 52//21 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 117 | 105 min | गै. मु. ड्रेन | निजी | 0.0101 |
| 118 | 111/1 min | गै. मु. खाल | निजी | 0.0126 |
| 119 | 132 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0126 |
| 120 | 133/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0152 |
| 121 | 134 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.1264 |
| 122 | 135/2 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0126 |
| 123 | 136 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0329 |
| 124 | 137 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0305 |

| 125 | 118/1 min | गै. मु. खाल | निजी | 0.0051 |
|---------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 126 | 119/2/3 min | गै. मु. खाल | निजी | 0.0051 |
| 127 | 165 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0101 |
| 128 | 167/2 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0076 |
| 129 | 180/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 130 | 181/2 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0076 |
| 131 | 183 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 132 | 194 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| जोड़ | | | | 3.6415 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : सोनीपत | | | | |
| ग्राम का नाम : नाहरा | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 4//1/1/1 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 2 | 4//1/1/2 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 3 | 4//1/1/3 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0101 |
| 4 | 4//1/2 min | नहरी | निजी | 0.0379 |
| 5 | 4//2 min | नहरी | निजी | 0.0531 |
| 6 | 4//3 min | नहरी | निजी | 0.0480 |
| 7 | 4//4 min | नहरी | निजी | 0.0227 |
| 8 | 4//8 min | नहरी | निजी | 0.1062 |
| 9 | 4//9/1 min | नहरी | निजी | 0.0405 |
| 10 | 4//9/2 min | नहरी | निजी | 0.0455 |
| 11 | 4//10 min | नहरी | निजी | 0.0733 |
| 12 | 5//5/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 13 | 5//5/2/3 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0101 |
| 14 | 5//6/1 min | नहरी | निजी | 0.0278 |
| 15 | 5//6/2 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 16 | 5//6/3 min | चाही | निजी | 0.0278 |
| 17 | 5//7/1 min | चाही | निजी | 0.0708 |
| 18 | 5//7/2 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 19 | 5//8/1/2 min | चाही नहरी | निजी | 0.0202 |
| 20 | 5//8/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0481 |
| 21 | 5//8/2/3 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 22 | 5//9/2 min | नहरी | निजी | 0.0632 |
| 23 | 5//9/3 min | नहरी | निजी | 0.0076 |

| | | | | |
|----|-------------|----------------|------|---------------|
| 24 | 5//10/2 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 25 | 5//11/1 min | नहरी | निजी | 0.0253 |
| 26 | 5//11/2 min | नहरी | निजी | 0.0379 |
| 27 | 5//12 min | नहरी | निजी | 0.0658 |
| 28 | 5//13 min | नहरी | निजी | 0.0936 |
| 29 | 5//14 min | नहरी | निजी | 0.0936 |
| 30 | 5//15/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0101 |
| 31 | 5//15/2 min | नहरी | निजी | 0.0581 |
| 32 | 5//15/3 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 33 | 5//19 min | नहरी | निजी | 0.0202 |
| 34 | 5//20 min | नहरी | निजी | 0.0986 |
| 35 | 6//15 min | नहरी | निजी | 0.0304 |
| 36 | 6//16 min | नहरी | निजी | 0.0658 |
| 37 | 160 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0101 |
| 38 | 161 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0228 |
| 39 | 124 min | गै. मु. दहाना | निजी | 0.0076 |
| | | | | 1.4185 |

तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : सोनीपत

ग्राम का नाम : मल्हामाजरा

| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
|---------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 1//16 min | चाही | निजी | 0.0228 |
| 2 | 1//17 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 3 | 1//23/2 min | चाही | निजी | 0.0202 |
| 4 | 1//24 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 5 | 4//1 min | चाही | निजी | 0.0354 |
| 6 | 4//2 min | चाही | निजी | 0.0354 |
| 7 | 4//3 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 8 | 5//5 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 9 | 5//6 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 10 | 5//11 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 11 | 5//20 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 12 | 6//14 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 13 | 6//15 min | चाही | निजी | 0.0025 |
| 14 | 6//16 min | चाही | निजी | 0.0556 |
| 15 | 6//17 min | चाही | निजी | 0.0632 |

| | | | | |
|----|--------------|----------------|------|--------|
| 16 | 6//18 min | चाही | निजी | 0.0733 |
| 17 | 6//19 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 18 | 11//24 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 19 | 11//25/1 min | गै. मु. | निजी | 0.0025 |
| 20 | 11//25/2 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 21 | 12//16 min | नहरी | निजी | 0.0581 |
| 22 | 12//17 min | नहरी | निजी | 0.0632 |
| 23 | 12//18 min | नहरी | निजी | 0.0152 |
| 24 | 12//21/2 min | नहरी | निजी | 0.0025 |
| 25 | 12//21/3 min | नहरी | निजी | 0.0278 |
| 26 | 12//22 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 27 | 12//23/1 min | नहरी | निजी | 0.0531 |
| 28 | 12//23/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 29 | 12//24/1 min | नहरी | निजी | 0.0126 |
| 30 | 12//24/2 min | नहरी | निजी | 0.0607 |
| 31 | 12//25/1 min | चाही | निजी | 0.0784 |
| 32 | 13//12/1 min | नहरी | निजी | 0.0101 |
| 33 | 13//12/2 min | गै. मु. | निजी | 0.0126 |
| 34 | 13//13 min | नहरी | निजी | 0.0581 |
| 35 | 13//14 min | नहरी | निजी | 0.0531 |
| 36 | 13//15 min | नहरी | निजी | 0.0430 |
| 37 | 13//16/1 min | चाही | निजी | 0.0582 |
| 38 | 13//17 min | नहरी | निजी | 0.0481 |
| 39 | 13//18 min | नहरी | निजी | 0.0581 |
| 40 | 13//19/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 41 | 13//19/2 min | चाही | निजी | 0.0607 |
| 42 | 13//20 min | नहरी | निजी | 0.0556 |
| 43 | 13//21 min | नहरी | निजी | 0.0784 |
| 44 | 13//22/1 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 45 | 14//5 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 46 | 14//6 min | चाही | निजी | 0.0632 |
| 47 | 14//7 min | चाही | निजी | 0.0758 |
| 48 | 14//8 min | चाही | निजी | 0.0581 |
| 49 | 14//9 min | चाही | निजी | 0.0405 |
| 50 | 14//10 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 51 | 14//11 min | चाही | निजी | 0.0481 |
| 52 | 14//12 min | चाही | निजी | 0.0759 |

| 53 | 14//13/1 min | चाही | निजी | 0.0581 |
|---------------------------------------|--|------------------------|----------------|--------------------------------|
| 54 | 14//13/2 min | चाही | निजी | 0.0202 |
| 55 | 14//14 min | चाही | निजी | 0.0809 |
| 56 | 14//15 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 57 | 14//20/1 min | नहरी | निजी | 0.0405 |
| 58 | 15//10 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 59 | 28//1/2 min | नहरी | निजी | 0.0430 |
| 60 | 28//2/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0253 |
| 61 | 28//2/2/2 min | गै. मु. खाल | निजी | 0.0025 |
| 62 | 28//2/2/3 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 63 | 28//3 min | नहरी | निजी | 0.0481 |
| 64 | 29//4 min | नहरी | निजी | 0.0253 |
| 65 | 29//5 min | नहरी | निजी | 0.0556 |
| 66 | 29//7/1 min | नहरी | निजी | 0.0051 |
| 67 | 29//7/2 min | नहरी | निजी | 0.0228 |
| 68 | 59 min | गै. मु. शिक्षण संस्थान | निजी | 0.0177 |
| 69 | 75 min | गै. मु. दहाना | निजी | 0.0051 |
| 70 | 76 min | गै. मु. दहाना | निजी | 0.0051 |
| 71 | 82 min | गै. मु. दहाना | निजी | 0.0101 |
| 72 | 83 min | गै. मु. दहाना | निजी | 0.0051 |
| 73 | 143 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0228 |
| 74 | 144 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 75 | 157 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| जोड़ | | | | 2.4431 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : सोनीपत | | | | |
| ग्राम का नाम : छतैहरा बहादुरपुर | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2//20 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 2 | 2//21 min | चाही | निजी | 0.0379 |
| 3 | 8//2 min | चाही | निजी | 0.0379 |
| 4 | 8//9 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 5 | 8//12/1 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 6 | 8//12/2 min | चाही | सरकारी | 0.0152 |
| 7 | 37//5 min | चाही | निजी | 0.0025 |
| 8 | 37//6 min | चाही | निजी | 0.0228 |

| | | | | |
|----|----------------|---------|------|--------|
| 9 | 37//7 min | चाही | निजी | 0.0455 |
| 10 | 37//8/1 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 11 | 37//8/2 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 12 | 37//9 min | चाही | निजी | 0.0531 |
| 13 | 37//10 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 14 | 37//11 min | चाही | निजी | 0.0531 |
| 15 | 37//12 min | चाही | निजी | 0.0481 |
| 16 | 37//13 min | चाही | निजी | 0.0354 |
| 17 | 37//14 min | चाही | निजी | 0.0253 |
| 18 | 38//12 min | गै. मु. | निजी | 0.0202 |
| 19 | 38//13 min | चाही | निजी | 0.0405 |
| 20 | 38//14 min | चाही | निजी | 0.0052 |
| 21 | 38//15/1 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 22 | 38//15/2 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 23 | 38//19 min | चाही | निजी | 0.0708 |
| 24 | 38//20/1 min | चाही | निजी | 0.0531 |
| 25 | 38//21/1 min | चाही | निजी | 0.0531 |
| 26 | 38//21/2 min | चाही | निजी | 0.0152 |
| 27 | 38//22 min | चाही | निजी | 0.0152 |
| 28 | 39//16/1 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 29 | 39//16/2 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 30 | 39//17/1 min | चाही | निजी | 0.0253 |
| 31 | 39//17/2 min | चाही | निजी | 0.0253 |
| 32 | 39//17/3 min | चाही | निजी | 0.0531 |
| 33 | 39//18 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 34 | 39//21/1 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 35 | 39//21/3 min | चाही | निजी | 0.0354 |
| 36 | 39//21/4 min | गै. मु. | निजी | 0.0051 |
| 37 | 39//22/1 min | चाही | निजी | 0.0152 |
| 38 | 39//22/2 min | चाही | निजी | 0.0607 |
| 39 | 39//23/1 min | चाही | निजी | 0.0405 |
| 40 | 39//23/2 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 41 | 39//24/1 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 42 | 39//24/2 min | चाही | निजी | 0.0658 |
| 43 | 39//25 min | चाही | निजी | 0.0860 |
| 44 | 40//24 min | चाही | निजी | 0.0227 |
| 45 | 40//25/1/1 min | चाही | निजी | 0.0076 |

| 46 | 40//25/1/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0101 |
|------------------------------------|--|-----------------|----------------|--------------------------------|
| 47 | 40//25/2/3 min | चाही | निजी | 0.0251 |
| 48 | 45//5 min | चाही | निजी | 0.0278 |
| 49 | 46//1/2 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 50 | 46//2 min | चाही | निजी | 0.0708 |
| 51 | 46//3 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 52 | 46//4/1/1 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 53 | 46//4/1/2 min | चाही | निजी | 0.0152 |
| 54 | 46//4/2 min | गै. मु. | सरकारी | 0.0076 |
| 55 | 46//5 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 56 | 46//7/2/1 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 57 | 46//7/2/2 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 58 | 46//8 min | चाही | निजी | 0.0658 |
| 59 | 46//9/1 min | चाही | निजी | 0.0582 |
| 60 | 46//9/2 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 61 | 46//10/1 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 62 | 46//10/2 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 63 | 46//10/3 min | चाही | निजी | 0.0405 |
| 64 | 47//1 min | चाही | निजी | 0.0632 |
| 65 | 47//2 min | चाही | निजी | 0.0759 |
| 66 | 47//3/1 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 67 | 47//3/2 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 68 | 53 min | चाही | सरकारी | 0.0227 |
| 69 | 89 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0228 |
| 70 | 163 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| जोड़ | | | | 2.1502 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : राई | | | | |
| ग्राम का नाम : अकबरपुर बारोटा | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हैक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 25//12 min | चाही | निजी | 0.0025 |
| 2 | 25//13 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0152 |
| 3 | 25//18/1 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0430 |
| 4 | 25//18/2 min | चाही | निजी | 0.0152 |
| 5 | 25//23 min | चाही | निजी | 0.0708 |
| 6 | 41//3/1 min | चाही | निजी | 0.0379 |

| 7 | 41//4/1 min | चाही | निजी | 0.0076 |
|---------------------------------------|--|--------------------------------|----------------|--------------------------------|
| 8 | 41//4/2 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 9 | 41//7/1 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 10 | 41//7/2 min | चाही | निजी | 0.0455 |
| 11 | 41//14 min | चाही | निजी | 0.0784 |
| 12 | 41//16/1 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 13 | 41//16/2 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 14 | 41//17/1/1 min | चाही | निजी | 0.0379 |
| 15 | 41//17/1/2 min | चाही | निजी | 0.0152 |
| 16 | 41//25/1 min | चाही | निजी | 0.0253 |
| 17 | 44//6/1 min | चाही | निजी | 0.0911 |
| 18 | 44//6/2 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 19 | 44//15/2 min | चाही | निजी | 0.0279 |
| 20 | 44//16 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 21 | 44//25 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 22 | 45//10 min | चाही | निजी | 0.0134 |
| 23 | 45//11/1 min | चाही | निजी | 0.0531 |
| 24 | 45//20/2 min | चाही | निजी | 0.0329 |
| 25 | 67//16 min | चाही | निजी | 0.0202 |
| 26 | 68//2 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 27 | 68//3 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 28 | 68//9/1 min | चाही | निजी | 0.0253 |
| 29 | 68//9/2 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 30 | 68//11 min | चाही | निजी | 0.0430 |
| 31 | 68//12/1 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 32 | 68//20 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 33 | 119 min | गै. मु. ड्रेन व गै. मु. दाहाना | सरकारी व निजी | 0.0177 |
| 34 | 156/1 min | गै. मु. ड्रेन | सरकारी | 0.0278 |
| 35 | 340 min | गै. मु. ड्रेन | सरकारी | 0.0126 |
| 36 | 345 min | गै. मु. व गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| जोड़ | | | | 0.9594 |
| तहसील/उप-तहसील/तालुका का नाम : सोनीपत | | | | |
| ग्राम का नाम : जगदीशपुर | | | | |
| क्रमिक संख्या | सर्वेक्षण संख्या मुस्तिल नम्बर/ किला नम्बर | भूमि की प्रकृति | भूमि की प्रकार | भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टर में) |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 14//17/2 min | चाही | निजी | 0.0051 |

| | | | | |
|----|---------------|---------|------|--------|
| 2 | 14//24 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 3 | 14//25 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 4 | 21//11/1 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 5 | 21//20 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 6 | 21//21 min | चाही | निजी | 0.0506 |
| 7 | 21//22/1 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 8 | 22//5 min | चाही | निजी | 0.0354 |
| 9 | 22//6/1 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 10 | 22//6/2/1 min | नहरी | निजी | 0.0177 |
| 11 | 22//6/2/2 min | नहरी | निजी | 0.0076 |
| 12 | 22//15 min | चाही | निजी | 0.0177 |
| 13 | 25//2/1 min | चाही | निजी | 0.0632 |
| 14 | 25//2/2 min | चाही | निजी | 0.0076 |
| 15 | 25//9 min | चाही | निजी | 0.0936 |
| 16 | 25//12 min | चाही | निजी | 0.0708 |
| 17 | 25//13/1 min | चाही | निजी | 0.0556 |
| 18 | 25//18 min | चाही | निजी | 0.1265 |
| 19 | 25//23 min | चाही | निजी | 0.1113 |
| 20 | 25//24/1 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 21 | 33//21/1 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 22 | 34//3 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 23 | 34//4 min | चाही | निजी | 0.1113 |
| 24 | 34//7 min | चाही | निजी | 0.1265 |
| 25 | 34//14 min | चाही | निजी | 0.0607 |
| 26 | 34//15 min | चाही | निजी | 0.0582 |
| 27 | 34//16 min | चाही | निजी | 0.1088 |
| 28 | 34//25 min | चाही | निजी | 0.0986 |
| 29 | 36//5 min | चाही | निजी | 0.0101 |
| 30 | 37//1 min | चाही | निजी | 0.0986 |
| 31 | 37//10 min | चाही | निजी | 0.0986 |
| 32 | 37//11 min | चाही | निजी | 0.0304 |
| 33 | 37//12 min | चाही | निजी | 0.0379 |
| 34 | 37//19 min | चाही | निजी | 0.0430 |
| 35 | 37//22/1 min | चाही | निजी | 0.0051 |
| 36 | 37//22/2 min | चाही | निजी | 0.0126 |
| 37 | 45//6 min | गै. मु. | निजी | 0.3137 |
| 38 | 46//20/2 min | गै. मु. | निजी | 0.0101 |

| | | | | |
|-----------------|--------|----------------|------|----------------|
| 39 | 72 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0101 |
| 40 | 73 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| 41 | 99 min | गै. मु. रास्ता | निजी | 0.0051 |
| जोड़ | | | | 2.0742 |
| कुल जोड़ | | | | 20.5715 |

[फा. सं.-8-/HRIDC/W.Spl/2019]

ए. के. सिंघल, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAYS
(Western Railway)
(CONSTRUCTION ORGANIZATION)]
NOTIFICATION

New Delhi, the 17th August 2023

S.O. 3678(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section(1) of section of 20A of the Railway Act,1989 (24 of 1989) Amended through Railways (Amendment) Act, 2008 (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government after being satisfied that for the public purpose, the land to be acquired, with or without structure, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for execution, maintenance, management & operation in connection with the Special Railway Project, namely, “Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New Broad Gauge Double Rail Line on the stretch of land from K.M. 99.185 to K.M. 124.820 in the District of Sonipat in the state of Haryana hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition & use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely the District Revenue officer - Cum - Competent Authority (LA), Sonipat writing & shall set-out the grounds thereof & the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections & after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 20D of the said Act shall be final.

The land plans & other details of the land covered under this notification are available & can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for the Special Railway Project, namely, “Haryana Orbital Rail Corridor Project from Palwal to Sonipat via Sohna, Manesar and Kharkhoda” New Broad-Gauge Double Rail Line on the stretch of land from K.M.99.185 to K.M. 124.820 in the District of Sonipat in the state of Haryana

| Name of District: Sonipat | | | | |
|--|-----------------------------------|----------------|--------------|-----------------------|
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Pai | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 56//16/2 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 2 | 56//23/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 3 | 58//2/1/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |

| 4 | 58//3 min | Nahari | Private | 0.0177 |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 5 | 58//8/2 min | Nahari | Private | 0.0228 |
| 6 | 58//9/2 min | Nahari | Private | 0.0177 |
| 7 | 58//20 min | Nahari | Private | 0.0152 |
| 8 | 59//16/1 min | Nahari | Private | 0.0202 |
| 9 | 59//25 min | Bhud | Private | 0.0304 |
| 10 | 62//4/2 min | Nahari | Private | 0.0126 |
| 11 | 62//7/2 min | Bhud | Private | 0.0051 |
| 12 | 62//13/2 min | Bhud | Private | 0.0051 |
| 13 | 62//19 min | Bhud | Private | 0.0076 |
| 14 | 80 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0506 |
| Sub Total | | | | 0.2228 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Prahladpur | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2//6/2 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 2 | 2//15/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 3 | 2//17 min | Nahari | Private | 0.0101 |
| 4 | 2//18/2 min | Gair Mumkin Samad | Private | 0.0051 |
| 5 | 2//23/2 min | Gair Mumkin Samad | Private | 0.0051 |
| 6 | 2//23/3 min | Nahari | Private | 0.0126 |
| 7 | 3//2 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 8 | 3//10 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 9 | 16//10 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 10 | 17//22/2 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| Sub Total | | | | 0.0760 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Barona | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 96//13/2 min | Chahi | Government | 0.0405 |
| 2 | 96//19/1 min | Barani | Government | 0.0126 |
| 3 | 96//19/2/1 min | Barani | Government | 0.0177 |
| 4 | 96//21/2 min | Barani | Government | 0.0126 |
| 5 | 99//5/2 min | Nahari | Government | 0.0228 |
| 6 | 99//7/1 min | Barani | Government | 0.0152 |
| 7 | 99//13/2 min | Nahari | Government | 0.0278 |
| 8 | 99//18/1/1 min | Nahari | Government | 0.0051 |

| 9 | 99//18/1/2 min | Barani | Government | 0.0051 |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 10 | 99//19/1 min | Barani | Government | 0.0253 |
| 11 | 99//21/2/2 min | Nahari | Government | 0.0177 |
| 12 | 99//22/1 min | Nahari | Government | 0.0076 |
| 13 | 104//6 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 14 | 104//7/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 15 | 104//14 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 16 | 105//1 min | Barani | Government | 0.0101 |
| Sub Total | | | | 0.2404 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Gopalpur | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 46//17/1 min | Nahari | Private | 0.0025 |
| 2 | 46//24/1/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0101 |
| 3 | 61//25/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0051 |
| 4 | 62//11/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0025 |
| 5 | 62//12/1/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0405 |
| 6 | 62//12/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.1796 |
| 7 | 62//13 min | Gair Mumkin | Government | 0.0228 |
| 8 | 62//19 min | Gair Mumkin | Government | 0.0329 |
| 9 | 62//20/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.2200 |
| 10 | 79//19 min | Gair Mumkin | Government | 0.0379 |
| 11 | 79//20/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0051 |
| 12 | 79//21/1 min | Gair Mumkin | Government | 0.0430 |
| 13 | 80//25/1/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0025 |
| 14 | 80//25/2/1 min | Gair Mumkin | Government | 0.0025 |
| 15 | 81//5/1/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0278 |
| 16 | 81//5/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0101 |
| 17 | 81//7/1 min | Gair Mumkin | Government | 0.0405 |
| 18 | 81//7/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0025 |
| 19 | 131 min | Gair Mumkin | Government | 0.0152 |
| 20 | 101 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0357 |
| Sub Total | | | | 0.7388 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Pipli | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 11//25/2 min | Chahi | Private | 0.0607 |
| 2 | 12//20/2 min | Nahari | Private | 0.0152 |
| 3 | 12//21 min | Nahari | Private | 0.0076 |

| | | | | |
|----|----------------|--------------|------------|--------|
| 4 | 14//4/2 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 5 | 14//5 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 6 | 14//7/1 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 7 | 14//7/2 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 8 | 14//8/1 min | Chahi | Private | 0.0455 |
| 9 | 14//12/2 min | Chahi | Private | 0.0354 |
| 10 | 14//13 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 11 | 14//19 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 12 | 14//20/1 min | Chahi | Private | 0.3465 |
| 13 | 14//21/1 min | Chahi | Private | 0.0405 |
| 14 | 15//24/2/2 min | Chahi | Government | 0.0152 |
| 15 | 15//25/2/1 min | Chahi | Government | 0.0025 |
| 16 | 15//25/2/2 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 17 | 36//4/2 min | Nahari | Government | 0.0101 |
| 18 | 36//5/1 min | Nahari | Government | 0.0481 |
| 19 | 36//7/1 min | Nahari | Government | 0.0278 |
| 20 | 36//7/2 min | Nahari | Government | 0.0379 |
| 21 | 36//8/2/1 min | Nahari | Government | 0.0051 |
| 22 | 36//13/1 min | Nahari | Government | 0.0329 |
| 23 | 36//13/2 min | Nahari | Private | 0.0304 |
| 24 | 36//18/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 25 | 36//19/1 min | Nahari | Private | 0.0152 |
| 26 | 36//19/2/1 min | Chahi | Private | 0.0455 |
| 27 | 36//19/2/2 min | Chahi | Government | 0.0101 |
| 28 | 36//21/2 min | Nahari | Private | 0.0506 |
| 29 | 36//22 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 30 | 40//1 min | Nahari | Private | 0.0177 |
| 31 | 41//5/2 min | Nahari | Private | 0.0481 |
| 32 | 41//6 min | Chahi | Private | 0.0253 |
| 33 | 41//7/1/1 min | Nahari | Private | 0.0025 |
| 34 | 41//7/2/1 min | Banjar Kadim | Private | 0.0304 |
| 35 | 41//13/2 min | Nahari | Private | 0.0228 |
| 36 | 41//14 min | Chahi | Private | 0.0354 |
| 37 | 41//18 min | Nahari | Private | 0.0430 |
| 38 | 41//19/1 min | Nahari | Private | 0.0126 |
| 39 | 41//22 min | Nahari | Private | 0.0354 |
| 40 | 67//6/1 min | Nahari | Private | 0.0481 |
| 41 | 67//14/1/2 min | Chahi | Private | 0.0025 |
| 42 | 67//14/2 min | Nahari | Private | 0.0379 |
| 43 | 67//15/1 min | Nahari | Private | 0.0228 |
| 44 | 67//15/2 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 45 | 67//18/2 min | Nahari | Government | 0.1011 |
| 46 | 67//22/2 min | Nahari | Government | 0.0076 |
| 47 | 67//23 min | Nahari | Government | 0.2503 |
| 48 | 67//24 min | Nahari | Government | 0.0277 |

| | | | | |
|----|----------------|--------|------------|--------|
| 49 | 68//1/2 min | Nahari | Private | 0.0228 |
| 50 | 68//10 min | Nahari | Private | 0.0101 |
| 51 | 72//2/1 min | Nahari | Government | 0.0051 |
| 52 | 72//2/2 min | Nahari | Government | 0.2099 |
| 53 | 72//3/1 min | Nahari | Government | 0.0151 |
| 54 | 72//3/2 min | Nahari | Government | 0.0531 |
| 55 | 72//3/3 min | Nahari | Government | 0.0506 |
| 56 | 72//9 min | Nahari | Government | 0.1163 |
| 57 | 72//10 min | Nahari | Government | 0.1644 |
| 58 | 72//11 min | Nahari | Government | 0.1821 |
| 59 | 72//20 min | Nahari | Government | 0.0025 |
| 60 | 73//15/2 min | Nahari | Government | 0.1087 |
| 61 | 73//16 min | Nahari | Government | 0.2150 |
| 62 | 73//17/1 min | Nahari | Government | 0.0505 |
| 63 | 73//23/2 min | Nahari | Government | 0.0252 |
| 64 | 73//24/1 min | Nahari | Government | 0.0101 |
| 65 | 73//24/2 min | Nahari | Government | 0.2276 |
| 66 | 73//25/1 min | Nahari | Government | 0.0051 |
| 67 | 73//25/2 min | Nahari | Government | 0.0051 |
| 68 | 80//16/2 min | Nahari | Government | 0.1922 |
| 69 | 80//16/3 min | Nahari | Government | 0.0051 |
| 70 | 80//24/2/1 min | Nahari | Government | 0.0405 |
| 71 | 80//24/2/2 min | Nahari | Government | 0.1087 |
| 72 | 80//25/1 min | Nahari | Government | 0.0152 |
| 73 | 80//25/2 min | Nahari | Government | 0.0607 |
| 74 | 81//2/3/2 min | Nahari | Government | 0.0101 |
| 75 | 81//3/1 min | Nahari | Government | 0.0076 |
| 76 | 81//3/2 min | Nahari | Government | 0.2352 |
| 77 | 81//4/1 min | Nahari | Government | 0.0101 |
| 78 | 81//4/2 min | Nahari | Government | 0.0252 |
| 79 | 81//8/1 min | Nahari | Government | 0.0505 |
| 80 | 81//8/2 min | Nahari | Government | 0.0127 |
| 81 | 81//9/1 min | Nahari | Government | 0.0682 |
| 82 | 81//9/2 min | Nahari | Government | 0.0076 |
| 83 | 81//9/3 min | Nahari | Government | 0.0051 |
| 84 | 81//9/4 min | Nahari | Government | 0.1795 |
| 85 | 81//10/1/1 min | Nahari | Government | 0.0025 |
| 86 | 81//11 min | Nahari | Government | 0.2251 |
| 87 | 81//12/1 min | Nahari | Government | 0.0076 |
| 88 | 81//12/2 min | Nahari | Government | 0.0127 |
| 89 | 81//12/3 min | Nahari | Government | 0.0581 |
| 90 | 81//20/1 min | Nahari | Government | 0.0051 |
| 91 | 81//20/2 min | Nahari | Government | 0.0076 |
| 92 | 81//20/3 min | Nahari | Government | 0.0607 |
| 93 | 84//5/2 min | Nahari | Government | 0.0051 |

| 94 | 102 min | Gair Mumkin Road | Government | 0.0177 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 95 | 150/1 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0076 |
| 96 | 151/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 97 | 152/1 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0076 |
| 98 | 153/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0177 |
| 99 | 155 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0177 |
| 100 | 156/2 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 101 | 157 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0076 |
| 102 | 158/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 103 | 168 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0177 |
| 104 | 169/2 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0177 |
| Sub Total | | | | 4.8659 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Thana Kalan | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 94//23/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 2 | 115//24/2/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 3 | 116//3/2 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 4 | 121//3/2 min | Nahari | Private | 0.0126 |
| 5 | 121//4/2/1 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 6 | 121//8 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 7 | 128//10/1 min | Chahi | Private | 0.0025 |
| 8 | 128//11/2 min | Chahi | Private | 0.0025 |
| 9 | 128//20 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 10 | 181min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0405 |
| 11 | 170/1min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0202 |
| Sub Total | | | | 0.1417 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Turakpur | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |

| 1 | 27//4/2 min | Nahari | Private | 0.0025 |
|--|--------------------------------------|------------------|--------------|-----------------------|
| 2 | 27//13/2/2 min | Nahari | Private | 0.0253 |
| 3 | 29//17 min | Nahari | Private | 0.0632 |
| 4 | 29//23 min | Nahari | Private | 0.0733 |
| 5 | 29//24 min | Nahari | Private | 0.0126 |
| 6 | 35//15 min | Nahari | Private | 0.0506 |
| 7 | 35//16 min | Nahari | Private | 0.0379 |
| 8 | 35//17 min | Nahari | Private | 0.0404 |
| 9 | 35//23/2 min | Nahari | Private | 0.0329 |
| 10 | 35//24/1 min | Nahari | Private | 0.0303 |
| 11 | 35//24/2 min | Nahari | Private | 0.0278 |
| 12 | 36//2 min | Nahari | Private | 0.0632 |
| 13 | 36//3 min | Nahari | Private | 0.0227 |
| 14 | 36//9 min | Nahari | Private | 0.0303 |
| 15 | 36//10 min | Nahari | Private | 0.0556 |
| 16 | 36//11 min | Nahari | Private | 0.0278 |
| 17 | 38//2/2 min | Nahari | Private | 0.0252 |
| 18 | 38//3 min | Nahari | Private | 0.0632 |
| 19 | 38//9 min | Nahari | Private | 0.0761 |
| 20 | 38//10/1 min | Nahari | Private | 0.0128 |
| 21 | 38//11 min | Nahari | Private | 0.0157 |
| 22 | 39//15/2 min | Nahari | Private | 0.0784 |
| 23 | 39//16/1 min | Nahari | Private | 0.0051 |
| 24 | 39//16/2 min | Nahari | Private | 0.1290 |
| 25 | 39//17/1 min | Nahari | Private | 0.0581 |
| 26 | 39//18/2 min | Gair Mumkin Road | Government | 0.0228 |
| 27 | 39//24/1 min | Nahari | Private | 0.0076 |
| 28 | 39//24/2 min | Nahari | Private | 0.0961 |
| 29 | 62/1 min | Gair Mumkin Khal | Private | 0.0278 |
| 30 | 93/1 min | Gair Mumkin Khal | Private | 0.0126 |
| Sub Total | | | | 1.2269 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Mandori | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2//18 min | Chahi Nahari | Private | 0.0531 |
| 2 | 2//23 min | Chahi Nahari | Private | 0.0759 |
| 3 | 11//1/2 min | Chahi Nahari | Private | 0.0152 |
| 4 | 11//2 min | Chahi Nahari | Private | 0.0357 |
| 5 | 11//10/1 min | Chahi Nahari | Private | 0.0633 |
| 6 | 11//10/2 min | Chahi Nahari | Private | 0.0076 |

| 7 | 11//10/3 min | Chahi Nahari | Private | 0.0152 |
|--|--------------------------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------|
| 8 | 12//6/1 min | Chahi Nahari | Private | 0.0101 |
| 9 | 12//14 min | Chahi Nahari | Private | 0.0025 |
| 10 | 12//15 min | Chahi Nahari | Private | 0.0683 |
| 11 | 12//16/1 min | Chahi Nahari | Private | 0.0050 |
| 12 | 12//17 min | Chahi Nahari | Private | 0.0151 |
| 13 | 75 min | Gair Mumkin Road | Private | 0.0051 |
| Sub Total | | | | 0.3721 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Kharkhoda | | | | |
| Name of Village: Mandora | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 25//13/2/2 min | Chahi | Private | 0.0607 |
| 2 | 25//14/1 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 3 | 25//15/1 min | Chahi | Private | 0.0176 |
| 4 | 25//17/2 min | Nahri | Private | 0.0276 |
| 5 | 25//17/3 min | Nahri | Private | 0.1037 |
| 6 | 25//18/1/4 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 7 | 25//18/1/5 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 8 | 25//18/2/4 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 9 | 25//18/2/5 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 10 | 25//18/3/1 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 11 | 25//20/2 min | Nahri | Private | 0.0402 |
| 12 | 26//16/1/1 min | Nahri | Private | 0.0480 |
| 13 | 26//16/1/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 14 | 26//16/2 min | Nahri | Private | 0.0202 |
| 15 | 26//17/1 min | Nahri | Private | 0.0657 |
| 16 | 26//17/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 17 | 26//18 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 18 | 26//21/1 min | Nahri | Private | 0.0758 |
| 19 | 26//21/2 min | Nahri | Private | 0.0176 |
| 20 | 26//22/1 min | Nahri | Private | 0.0734 |
| 21 | 26//22/2 min | Nahri | Private | 0.0202 |
| 22 | 26//23 min | Nahri | Private | 0.0861 |
| 23 | 26//24/1 min | Nahri | Private | 0.0226 |
| 24 | 26//24/2 min | Nahri | Private | 0.0505 |
| 25 | 26//25 min | Nahri | Private | 0.0987 |
| 26 | 27//25/2 min | Nahri | Private | 0.0708 |
| 27 | 39//16/2 min | Nahri | Private | 0.0304 |
| 28 | 39//21/2 min | Nahri | Private | 0.0304 |
| 29 | 39//22 min | Nahri | Private | 0.0481 |
| 30 | 39//23 min | Chahi Nahari | Private | 0.0481 |

| | | | | |
|----|----------------|----------------------|---------|--------|
| 31 | 39//24 min | Chahi Nahari | Private | 0.0455 |
| 32 | 39//25/1 min | Chahi Nahari | Private | 0.0051 |
| 33 | 40//13 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 34 | 40//14/1 min | Nahri | Private | 0.0278 |
| 35 | 40//14/2 min | Nahri | Private | 0.0177 |
| 36 | 40//15 min | Nahri | Private | 0.0582 |
| 37 | 40//16/1 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 38 | 40//16/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 39 | 40//17 min | Nahri | Private | 0.0152 |
| 40 | 40//18 min | Nahri | Private | 0.0430 |
| 41 | 40//19/1 min | Nahri | Private | 0.0177 |
| 42 | 40//19/2 min | Nahri | Private | 0.0202 |
| 43 | 40//20 min | Nahri | Private | 0.0354 |
| 44 | 40//22 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 45 | 41//6/1 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 46 | 41//7/1 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 47 | 41//8/1 min | Nahri | Private | 0.0253 |
| 48 | 41//8/2/1 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 49 | 41//8/2/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 50 | 41//9 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 51 | 41//11/1 min | Nahri | Private | 0.0202 |
| 52 | 41//11/2 min | Nahri | Private | 0.0228 |
| 53 | 41//12 min | Nahri | Private | 0.0506 |
| 54 | 41//13 min | Nahri | Private | 0.0354 |
| 55 | 41//14/1 min | Nahri | Private | 0.0152 |
| 56 | 41//14/2/1 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 57 | 41//14/2/2 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 58 | 41//14/2/3 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 59 | 41//14/2/4 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 60 | 41//14/3 min | Nahri | Private | 0.0202 |
| 61 | 41//15 min | Nahri | Private | 0.0506 |
| 62 | 41//19 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 63 | 41//20 min | Nahri | Private | 0.0390 |
| 64 | 42//1/1 min | Nahri | Private | 0.0152 |
| 65 | 42//1/2 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 66 | 42//2/1 min | Nahri | Private | 0.0632 |
| 67 | 42//2/2 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 68 | 42//3/1 min | Nahri | Private | 0.0253 |
| 69 | 42//3/2 min | Nahri | Private | 0.0401 |
| 70 | 42//4/1 min | Nahri | Private | 0.0202 |
| 71 | 42//4/2 min | Nahri | Private | 0.0708 |
| 72 | 42//5/1 min | Nahri | Private | 0.0176 |
| 73 | 42//5/2 min | Nahri | Private | 0.0784 |
| 74 | 42//6 min | Nahri | Private | 0.0531 |

| | | | | |
|-----|----------------|----------------------|---------|--------|
| 75 | 42//7 min | Nahri | Private | 0.1037 |
| 76 | 42//8/2 min | Nahri | Private | 0.0581 |
| 77 | 42//9/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 78 | 42//9/2/1 min | Nahri | Private | 0.0556 |
| 79 | 42//10/1 min | Nahri | Private | 0.0632 |
| 80 | 42//10/2 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 81 | 42//11 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 82 | 43//1/1/2 min | Nahri | Private | 0.1214 |
| 83 | 43//1/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 84 | 43//2/1 min | Nahri | Private | 0.1264 |
| 85 | 43//3/1 min | Nahri | Private | 0.1264 |
| 86 | 43//4 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 87 | 50//1/1 min | Nahri | Private | 0.0152 |
| 88 | 50//1/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 89 | 50//2/2 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 90 | 50//3/1 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 91 | 50//4 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 92 | 51//2 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 93 | 51//3 min | Nahri | Private | 0.0354 |
| 94 | 51//4 min | Nahri | Private | 0.0354 |
| 95 | 51//5/1 min | Nahri | Private | 0.0278 |
| 96 | 51//7/2 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 97 | 51//8/1 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 98 | 51//8/2 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 99 | 51//9/1 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 100 | 51//9/2 min | Chahi | Private | 0.0228 |
| 101 | 51//10 min | Nahri | Private | 0.0354 |
| 102 | 52//6 min | Nahri | Private | 0.0329 |
| 103 | 52//13/2/1 min | Nahri | Private | 0.0177 |
| 104 | 52//13/2/2 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 105 | 52//14 min | Nahri | Private | 0.0354 |
| 106 | 52//15/1 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 107 | 52//15/2 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 108 | 52//15/3 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 109 | 52//15/4 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 110 | 52//17/1 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 111 | 52//17/2/1 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 112 | 52//18 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 113 | 52//19/1 min | Nahri | Private | 0.0152 |
| 114 | 52//19/2 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 115 | 52//20/2 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 116 | 52//21 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 117 | 105 min | Gair Mumkin | Private | 0.0101 |

| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
|--|--------------------------------------|-----------------------|-----------------|-----------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | Drain | | |
| 118 | 111/1 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0126 |
| 119 | 132 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0126 |
| 120 | 133/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0152 |
| 121 | 134 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.1264 |
| 122 | 135/2 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0126 |
| 123 | 136 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0329 |
| 124 | 137 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0305 |
| 125 | 118/1 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0051 |
| 126 | 119/2/3 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0051 |
| 127 | 165 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0101 |
| 128 | 167/2 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0076 |
| 129 | 180/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 130 | 181/2 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0076 |
| 131 | 183 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 132 | 194 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| Sub Total | | | | 3.6415 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sonipat | | | | |
| Name of Village: Nahra | | | | |
| 1 | 4//1/1/1 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 2 | 4//1/1/2 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 3 | 4//1/1/3 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0101 |
| 4 | 4//1/2 min | Nahri | Private | 0.0379 |
| 5 | 4//2 min | Nahri | Private | 0.0531 |
| 6 | 4//3 min | Nahri | Private | 0.0480 |
| 7 | 4//4 min | Nahri | Private | 0.0227 |
| 8 | 4//8 min | Nahri | Private | 0.1062 |
| 9 | 4//9/1 min | Nahri | Private | 0.0405 |
| 10 | 4//9/2 min | Nahri | Private | 0.0455 |
| 11 | 4//10 min | Nahri | Private | 0.0733 |

| 12 | 5//5/2/2 min | Nahri | Private | 0.0051 |
|--|-----------------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|
| 13 | 5//5/2/3 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0101 |
| 14 | 5//6/1 min | Nahri | Private | 0.0278 |
| 15 | 5//6/2 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 16 | 5//6/3 min | Chahi | Private | 0.0278 |
| 17 | 5//7/1 min | Chahi | Private | 0.0708 |
| 18 | 5//7/2 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 19 | 5//8/1/2 min | Chahi Nahri | Private | 0.0202 |
| 20 | 5//8/2/2 min | Nahri | Private | 0.0481 |
| 21 | 5//8/2/3 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 22 | 5//9/2 min | Nahri | Private | 0.0632 |
| 23 | 5//9/3 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 24 | 5//10/2 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 25 | 5//11/1 min | Nahri | Private | 0.0253 |
| 26 | 5//11/2 min | Nahri | Private | 0.0379 |
| 27 | 5//12 min | Nahri | Private | 0.0658 |
| 28 | 5//13 min | Nahri | Private | 0.0936 |
| 29 | 5//14 min | Nahri | Private | 0.0936 |
| 30 | 5//15/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0101 |
| 31 | 5//15/2 min | Nahri | Private | 0.0581 |
| 32 | 5//15/3 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 33 | 5//19 min | Nahri | Private | 0.0202 |
| 34 | 5//20 min | Nahri | Private | 0.0986 |
| 35 | 6//15 min | Nahri | Private | 0.0304 |
| 36 | 6//16 min | Nahri | Private | 0.0658 |
| 37 | 160 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0101 |
| 38 | 161 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0228 |
| 39 | 124 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0076 |
| Sub Total | | | | 1.4185 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sonipat | | | | |
| Name of Village: Malha Majra | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 1//16 min | Chahi | Private | 0.0228 |
| 2 | 1//17 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 3 | 1//23/2 min | Chahi | Private | 0.0202 |
| 4 | 1//24 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 5 | 4//1 min | Chahi | Private | 0.0354 |
| 6 | 4//2 min | Chahi | Private | 0.0354 |
| 7 | 4//3 min | Chahi | Private | 0.0126 |

| | | | | |
|----|--------------|----------------------|---------|--------|
| 8 | 5//5 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 9 | 5//6 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 10 | 5//11 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 11 | 5//20 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 12 | 6//14 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 13 | 6//15 min | Chahi | Private | 0.0025 |
| 14 | 6//16 min | Chahi | Private | 0.0556 |
| 15 | 6//17 min | Chahi | Private | 0.0632 |
| 16 | 6//18 min | Chahi | Private | 0.0733 |
| 17 | 6//19 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 18 | 11//24 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 19 | 11//25/1 min | Gair Mumkin | Private | 0.0025 |
| 20 | 11//25/2 min | Nahri | Private | 0.0177 |
| 21 | 12//16 min | Nahri | Private | 0.0581 |
| 22 | 12//17 min | Nahri | Private | 0.0632 |
| 23 | 12//18 min | Nahri | Private | 0.0152 |
| 24 | 12//21/2 min | Nahri | Private | 0.0025 |
| 25 | 12//21/3 min | Nahri | Private | 0.0278 |
| 26 | 12//22 min | Nahri | Private | 0.0228 |
| 27 | 12//23/1 min | Nahri | Private | 0.0531 |
| 28 | 12//23/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 29 | 12//24/1 min | Nahri | Private | 0.0126 |
| 30 | 12//24/2 min | Nahri | Private | 0.0607 |
| 31 | 12//25/1 min | Chahi | Private | 0.0784 |
| 32 | 13//12/1 min | Nahri | Private | 0.0101 |
| 33 | 13//12/2 min | Gair Mumkin | Private | 0.0126 |
| 34 | 13//13 min | Nahri | Private | 0.0581 |
| 35 | 13//14 min | Nahri | Private | 0.0531 |
| 36 | 13//15 min | Nahri | Private | 0.0430 |
| 37 | 13//16/1 min | Chahi | Private | 0.0582 |
| 38 | 13//17 min | Nahri | Private | 0.0481 |
| 39 | 13//18 min | Nahri | Private | 0.0581 |
| 40 | 13//19/1 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 41 | 13//19/2 min | Chahi | Private | 0.0607 |
| 42 | 13//20 min | Nahri | Private | 0.0556 |
| 43 | 13//21 min | Nahri | Private | 0.0784 |
| 44 | 13//22/1 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 45 | 14//5 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 46 | 14//6 min | Chahi | Private | 0.0632 |
| 47 | 14//7 min | Chahi | Private | 0.0758 |
| 48 | 14//8 min | Chahi | Private | 0.0581 |
| 49 | 14//9 min | Chahi | Private | 0.0405 |
| 50 | 14//10 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 51 | 14//11 min | Chahi | Private | 0.0481 |

| 52 | 14//12 min | Chahi | Private | 0.0759 |
|--|--|-----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
| 53 | 14//13/1 min | Chahi | Private | 0.0581 |
| 54 | 14//13/2 min | Chahi | Private | 0.0202 |
| 55 | 14//14 min | Chahi | Private | 0.0809 |
| 56 | 14//15 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 57 | 14//20/1 min | Nahri | Private | 0.0405 |
| 58 | 15//10 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 59 | 28//1/2 min | Nahri | Private | 0.0430 |
| 60 | 28//2/2/1 min | Nahri | Private | 0.0253 |
| 61 | 28//2/2/2 min | Gair Mumkin Khal | Private | 0.0025 |
| 62 | 28//2/2/3 min | Nahri | Private | 0.0228 |
| 63 | 28//3 min | Nahri | Private | 0.0481 |
| 64 | 29//4 min | Nahri | Private | 0.0253 |
| 65 | 29//5 min | Nahri | Private | 0.0556 |
| 66 | 29//7/1 min | Nahri | Private | 0.0051 |
| 67 | 29//7/2 min | Nahri | Private | 0.0228 |
| 68 | 59 min | Gair Mumkin Teaching Institute | Private | 0.0177 |
| 69 | 75 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0051 |
| 70 | 76 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0051 |
| 71 | 82 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0101 |
| 72 | 83 min | Gair Mumkin Dahana | Private | 0.0051 |
| 73 | 143 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0228 |
| 74 | 144 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 75 | 157 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| Sub Total | | | | 2.4431 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sonipat | | | | |
| Name of Village: Chhatehra Bahadurpur | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 2//20 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 2 | 2//21 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 3 | 8//2 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 4 | 8//9 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 5 | 8//12/1 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 6 | 8//12/2 min | Chahi | Government | 0.0152 |
| 7 | 37//5 min | Chahi | Private | 0.0025 |
| 8 | 37//6 min | Chahi | Private | 0.0228 |

| | | | | |
|----|----------------|-------------|------------|--------|
| 9 | 37//7 min | Chahi | Private | 0.0455 |
| 10 | 37//8/1 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 11 | 37//8/2 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 12 | 37//9 min | Chahi | Private | 0.0531 |
| 13 | 37//10 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 14 | 37//11 min | Chahi | Private | 0.0531 |
| 15 | 37//12 min | Chahi | Private | 0.0481 |
| 16 | 37//13 min | Chahi | Private | 0.0354 |
| 17 | 37//14 min | Chahi | Private | 0.0253 |
| 18 | 38//12 min | Gair Mumkin | Private | 0.0202 |
| 19 | 38//13 min | Chahi | Private | 0.0405 |
| 20 | 38//14 min | Chahi | Private | 0.0052 |
| 21 | 38//15/1 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 22 | 38//15/2 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 23 | 38//19 min | Chahi | Private | 0.0708 |
| 24 | 38//20/1 min | Chahi | Private | 0.0531 |
| 25 | 38//21/1 min | Chahi | Private | 0.0531 |
| 26 | 38//21/2 min | Chahi | Private | 0.0152 |
| 27 | 38//22 min | Chahi | Private | 0.0152 |
| 28 | 39//16/1 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 29 | 39//16/2 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 30 | 39//17/1 min | Chahi | Private | 0.0253 |
| 31 | 39//17/2 min | Chahi | Private | 0.0253 |
| 32 | 39//17/3 min | Chahi | Private | 0.0531 |
| 33 | 39//18 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 34 | 39//21/1 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 35 | 39//21/3 min | Chahi | Private | 0.0354 |
| 36 | 39//21/4 min | Gair Mumkin | Private | 0.0051 |
| 37 | 39//22/1 min | Chahi | Private | 0.0152 |
| 38 | 39//22/2 min | Chahi | Private | 0.0607 |
| 39 | 39//23/1 min | Chahi | Private | 0.0405 |
| 40 | 39//23/2 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 41 | 39//24/1 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 42 | 39//24/2 min | Chahi | Private | 0.0658 |
| 43 | 39//25 min | Chahi | Private | 0.0860 |
| 44 | 40//24 min | Chahi | Private | 0.0227 |
| 45 | 40//25/1/1 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 46 | 40//25/1/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0101 |
| 47 | 40//25/2/3 min | Chahi | Private | 0.0251 |
| 48 | 45//5 min | Chahi | Private | 0.0278 |
| 49 | 46//1/2 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 50 | 46//2 min | Chahi | Private | 0.0708 |
| 51 | 46//3 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 52 | 46//4/1/1 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 53 | 46//4/1/2 min | Chahi | Private | 0.0152 |

| 54 | 46//4/2 min | Gair Mumkin | Government | 0.0076 |
|--|--------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------------------|
| 55 | 46//5 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 56 | 46//7/2/1 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 57 | 46//7/2/2 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 58 | 46//8 min | Chahi | Private | 0.0658 |
| 59 | 46//9/1 min | Chahi | Private | 0.0582 |
| 60 | 46//9/2 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 61 | 46//10/1 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 62 | 46//10/2 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 63 | 46//10/3 min | Chahi | Private | 0.0405 |
| 64 | 47//1 min | Chahi | Private | 0.0632 |
| 65 | 47//2 min | Chahi | Private | 0.0759 |
| 66 | 47//3/1 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 67 | 47//3/2 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 68 | 53 min | Chahi | Government | 0.0227 |
| 69 | 89 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0228 |
| 70 | 163 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| Sub Total | | | | 2.1502 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Rai | | | | |
| Name of Village: Akbarpur Barota | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 25//12 min | Chahi | Private | 0.0025 |
| 2 | 25//13 min | Gair Mumkin | Government | 0.0152 |
| 3 | 25//18/1 min | Gair Mumkin | Government | 0.0430 |
| 4 | 25//18/2 min | Chahi | Private | 0.0152 |
| 5 | 25//23 min | Chahi | Private | 0.0708 |
| 6 | 41//3/1 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 7 | 41//4/1 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 8 | 41//4/2 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 9 | 41//7/1 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 10 | 41//7/2 min | Chahi | Private | 0.0455 |
| 11 | 41//14 min | Chahi | Private | 0.0784 |
| 12 | 41//16/1 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 13 | 41//16/2 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 14 | 41//17/1/1 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 15 | 41//17/1/2 min | Chahi | Private | 0.0152 |
| 16 | 41//25/1 min | Chahi | Private | 0.0253 |
| 17 | 44//6/1 min | Chahi | Private | 0.0911 |
| 18 | 44//6/2 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 19 | 44//15/2 min | Chahi | Private | 0.0279 |
| 20 | 44//16 min | Chahi | Private | 0.0329 |

| 21 | 44//25 min | Chahi | Private | 0.0329 |
|--|--------------------------------------|---|-------------------------|-----------------------------|
| 22 | 45//10 min | Chahi | Private | 0.0134 |
| 23 | 45//11/1 min | Chahi | Private | 0.0531 |
| 24 | 45//20/2 min | Chahi | Private | 0.0329 |
| 25 | 67//16 min | Chahi | Private | 0.0202 |
| 26 | 68//2 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 27 | 68//3 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 28 | 68//9/1 min | Chahi | Private | 0.0253 |
| 29 | 68//9/2 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 30 | 68//11 min | Chahi | Private | 0.0430 |
| 31 | 68//12/1 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 32 | 68//20 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 33 | 119 min | Gair Mumkin Drain And Dahana | Government & Private | 0.0177 |
| 34 | 156/1 min | Gair Mumkin Drain | Government | 0.0278 |
| 35 | 340 min | Gair Mumkin Drain | Government | 0.0126 |
| 36 | 345 min | Gair Mumkin And Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| Sub Total | | | | 0.9594 |
| Name of the Sub Tehsil/Tehsil/Taluka: Sonipat | | | | |
| Name of Village: Jagdispur | | | | |
| Serial Number | Survey Number Rect. No./Field No. | Nature of Land | Type of Land | Land Area in Hectares |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | 14//17/2 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 2 | 14//24 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 3 | 14//25 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 4 | 21//11/1 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 5 | 21//20 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 6 | 21//21 min | Chahi | Private | 0.0506 |
| 7 | 21//22/1 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 8 | 22//5 min | Chahi | Private | 0.0354 |
| 9 | 22//6/1 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 10 | 22//6/2/1 min | Nahri | Private | 0.0177 |
| 11 | 22//6/2/2 min | Nahri | Private | 0.0076 |
| 12 | 22//15 min | Chahi | Private | 0.0177 |
| 13 | 25//2/1 min | Chahi | Private | 0.0632 |
| 14 | 25//2/2 min | Chahi | Private | 0.0076 |
| 15 | 25//9 min | Chahi | Private | 0.0936 |
| 16 | 25//12 min | Chahi | Private | 0.0708 |
| 17 | 25//13/1 min | Chahi | Private | 0.0556 |
| 18 | 25//18 min | Chahi | Private | 0.1265 |
| 19 | 25//23 min | Chahi | Private | 0.1113 |

| | | | | |
|--------------------|--------------|----------------------|---------|----------------|
| 20 | 25//24/1 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 21 | 33//21/1 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 22 | 34//3 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 23 | 34//4 min | Chahi | Private | 0.1113 |
| 24 | 34//7 min | Chahi | Private | 0.1265 |
| 25 | 34//14 min | Chahi | Private | 0.0607 |
| 26 | 34//15 min | Chahi | Private | 0.0582 |
| 27 | 34//16 min | Chahi | Private | 0.1088 |
| 28 | 34//25 min | Chahi | Private | 0.0986 |
| 29 | 36//5 min | Chahi | Private | 0.0101 |
| 30 | 37//1 min | Chahi | Private | 0.0986 |
| 31 | 37//10 min | Chahi | Private | 0.0986 |
| 32 | 37//11 min | Chahi | Private | 0.0304 |
| 33 | 37//12 min | Chahi | Private | 0.0379 |
| 34 | 37//19 min | Chahi | Private | 0.0430 |
| 35 | 37//22/1 min | Chahi | Private | 0.0051 |
| 36 | 37//22/2 min | Chahi | Private | 0.0126 |
| 37 | 45//6 min | Gair Mumkin | Private | 0.3137 |
| 38 | 46//20/2 min | Gair Mumkin | Private | 0.0101 |
| 39 | 72 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0101 |
| 40 | 73 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| 41 | 99 min | Gair Mumkin Rasta | Private | 0.0051 |
| Sub Total | | | | 2.0742 |
| Grand Total | | | | 20.5715 |

[F. No. 8-W/HRIDC/W.Spl/2019]

A. K. SINGHAL, Chief Administrative Officer (C)